



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 अगस्त, 2022

श्रावण 19, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2319/नौ-1-2022-4परि-2022

लखनऊ, 10 अगस्त, 2022

अधिसूचना

प0आ0-476

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या 1551/9-1-2020- 4परि0-22, दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात नगर पंचायत शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद के नगर पंचायत क्षेत्र को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित 19 वार्डों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक वार्ड का विस्तार ऐसा होगा, जैसा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उसके समक्ष उल्लिखित है।

अनुसूची

नगर पंचायत शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद का परिसीमन

क्र० संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार
1	2	3
1	अम्बेडकर नगर	उत्तर में ताडवाली हवेली का द० भाग दक्षिण में मुरैठी का उत्तरी भाग पूरब में लाडमपुर दोयम का पश्चिमी भाग पश्चिम में बाजारकला का पूर्वी भाग
2	अशोक नगर	उत्तर में ग्राम पंचायत बाजीदपुर का द० भाग दक्षिण में दलमीर खाँ का उत्तरी भाग पूरब में पलिया का पश्चिमी भाग पश्चिम में तराई का पूर्वी भाग

1	2	3
3	संजय नगर	उत्तर में अकबरपुर का द0 भाग दक्षिण में कोटला का उत्तरी भाग पूरब में बजरिया का पश्चिमी भाग पश्चिम में लतीफपुरा का पूर्वी भाग
4	शास्त्री नगर	उत्तर में ग्राम उधौपुर का द0 भाग दक्षिण में सावनटोला का उत्तरी भाग पूरब में मंझली हवेली का पश्चिमी भाग पश्चिम में घटियापुर का पूर्वी भाग
5	सुभाष नगर	उत्तर में अकबरपुर दामोदर का द0 भाग दक्षिण में बजरिया राजोटोला का उ0 भाग पूरब में सावनटोला का पश्चिमी भाग पश्चिम में सैदाबाडा फारुख हुसैन का पूर्वी भाग
6	जाकिर हुसैन नगर	उत्तर में बजरिया का द0 भाग दक्षिण में सिकन्दरपुर का उ0 भाग पूरब में शेरवानीटोला का पश्चिमी भाग पश्चिम में लतीफपुरा का पूर्वी भाग
7	तुलसी नगर	उत्तर में चौखण्डा का द0 भाग दक्षिण में मीरा दरवाजा का उ0 भाग पूरब में टिकुरिया का पश्चिमी भाग पश्चिम में फतेहचन्द का पूर्वी भाग
8	गौंधी नगर	उत्तर में बाजीदपुर का दक्षिणी भाग दक्षिण में मीरा दरवाजा का उत्तरी भाग पूरब में रशीदपुर का पश्चिमी भाग पश्चिम में तिवारियान का पूर्वी भाग
9	राजीव नगर	उत्तर में अकबरपुर दामोदर का दक्षिणी भाग दक्षिण में दलमीर खाँ का उत्तरी भाग पूरब में लाडमपुर दोयम का पश्चिमी भाग पश्चिम में चौखण्डा का पूर्वी भाग
10	आजाद नगर	उत्तर में गढी का दक्षिणी भाग दक्षिण में काजीटोला का उत्तरी भाग पूरब में इमली इरबाजा का पूर्वी भाग पश्चिम में सैदबाडा का पश्चिमी भाग
11	टीपू नगर	उत्तर में बाजार कला का दक्षिणी भाग दक्षिण में खानपुर का उत्तरी भाग पूरब में मीरा दरवाजा आंशिक पश्चिमी भाग पश्चिम में दारुदगिरा का पूर्वी भाग
12	इन्द्रा नगर	उत्तर में अकबरपुर दामोदर का द0 भाग दक्षिण में घटियापुर का उ0 भाग पूरब में चौखण्डा का पश्चिमी भाग पश्चिम में चौहट्टा का पूर्वी भाग
13	नेहरू नगर	उत्तर में फतेहचन्द का दक्षिणी भाग दक्षिण में इमली इरबाजा का उत्तरी भाग पूरब में मीरा दरवाजा का पश्चिमी भाग पश्चिम में बजरिया का पूर्वी भाग
14	फखरुद्दीन नगर	उत्तर में सैदबाडा फारुख हुसैन का दक्षिणी भाग दक्षिण में सिकन्दरपुर का उत्तरी भाग पूरब में गढी का पश्चिमी भाग पश्चिम में कोटला का पूर्वी भाग

1	2	3
15	किदबई नगर	उत्तर में बाजार कलां का दक्षिणी जटपुरा का पूर्वी भाग दक्षिण में काजीटोला का उत्तरी भाग पूरब में इमली दरवाजा का पश्चिमी भाग पश्चिम में राजोटोला का पूर्वी भाग
16	पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर	उत्तर में अकबरपुर दामोदर का दक्षिणी भाग दक्षिण में नीवलपुर सिकन्दरपुर का उत्तरी भाग पूरब में लतीफपुर का पश्चिमी भाग पश्चिम में हंसापुर गौराई का पूर्वी भाग
17	रानी अबंतीबाई नगर	उत्तरी में कोटला का दक्षिणी भाग दक्षिण में रजलामई का उत्तरी भाग पूरब में खानपुर का पश्चिमी भाग पश्चिम में नीवलपुर का पूर्वी भाग
18	पटेल नगर	उत्तर में पलिया का दक्षिणी भाग दक्षिण में पसियापुर का उत्तरी भाग पूरब में समस्तपुर का पश्चिमी भाग पश्चिम में खानपुर का पूर्वी भाग
19	भगतसिंह नगर	उत्तर में हसनापुर का दक्षिणी भाग दक्षिण में पसियापुर का उत्तरी भाग पूरब में समस्तपुर का पश्चिमी भाग पश्चिम में अलेपुर का पूर्वी भाग

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2319/IX-1-2022-4 Pari.-2022, dated August 10, 2022:

No. 2319/IX-1-2022-4 Pari.-20

Dated Lucknow, August 10, 2022

In exercise of the powers under section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor after considering objections received in pursuance of the order published in the *Gazette vide* notification no. 1551/IX-1-2022-4 Pari.-2022, dated June 15, 2022 under sub-section (2) of the said section, is pleased to divide the Municipal Area of Nagar Panchayat Shamsabad district Farrukhabad into 19 wards as mentioned in Column-2 of the Schedule below. The extent of every ward shall be such as mentioned against it in Coloumn-3 of the said Schedule.

SCHEDULE

Nagar Panchayat Shamsabad, district Farrukhabad

S. no.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
1	Ambedkar Nagar	North- The southern part of Tadvali Haveli. South- The northern part of Muraithi. East- The western part of Ladampur Doyam. West- The eastern part of Bajarkala
2	Ashok Nagar	North- The southern part of Bajidpur. South- The northern part of Dalmeer Khan. East- The western part of Paliya. West- The eastern part of Tarai.
3	Sanjay Nagar	North- The southern part of Akbarpur. South- The northern part of Kotla. East- The western part of Bajariya. West- The eastern part of Latifpura.

1	2	3
4	Shashtri Nagar	North- The southern part of Uddhaupur. South- The northern part of Sawantola. East- The western part of Manjhali Haveli. West- The eastern part of Ghatiyapur.
5	Subhash Nagar	North- The southern part of Akbarpur Damodar. South- The northern part of Bajariya Rajotola. East- The western part of Sawantola. West- The eastern part of Saidbada Farrukh Hussain.
6	Jakir Hussain Nagar	North- The southern part of Bajariya. South- The northern part of Sikandarpur. East- The western part of Servanitola. West- The eastern part of Latifpura.
7	Tulsi Nagar	North- The southern part of Chaukhandda. South- The northern part of Meera darwaja. East- The western part of Tikuriya. West- The eastern part of Fatehchand
8	Gandhi Nagar	North- The southern part of Bajidpur. South- The northern part of Meera darwaja. East- The western part of Raseedpur. West- The eastern part of Tivariyan
9	Rajiv Nagar	North- The southern part of Akbarpur Damodar. South- The northern part of Dalmeer Khan. East- The western part of Ladampur Doyam. West- The eastern part of Chaukhandda
10	Ajad Nagar	North- The southern part of Gadi. South- The northern part of Kajitola. East- The eastern part of Imali Darwaja. West- The western part of Saidbada
11	Teepu Nagar	North- The southern part of Bajarkala. South- The northern part of Khanpur. East- The western part of Meera Darwaja Ansik. West- The eastern part of Darudgira.
12	Indra Nagar	North- The southern part of Akbarpur. South- The northern part of Ghatiyapur. East- The western part of Chaukhandda. West- The eastern part of Chauhatta.
13	Nehru Nagar	North- The southern part of Fatehchand. South- The northern part of Imali Darwaja. East- The western part of Meera darwaja. West- The eastern part of Bajariya.
14	Fakhruddin Nagar	North- The southern part of Saidbada Farrukh Hussain. South- The northern part of Sikandarpur. East- The western part of Gadi. West- The eastern part of Kotla
15	Kidwai Nagar	North- The southern part of Bajaarkala and Jatpura East. South- The northern part of Kajitola. East- The western part of Imali Darwaja. West- The eastern part of Rajotola.
16	Pt. Deendayal Nagar	North- The southern part of Abarpur Damodar. South- The northern part of Nivalpur Sikandarpur. East- The western part of Latifpura. West- The eastern part of Hansapur Gaurai.

1	2	3
17	Rani Awantibai Nagar	North- The southern part of Kotla. South- The northern part of Rajlamai. East- The western part of Khanpur. West- The eastern part of Nivalpur.
18	Patel Nagar	North- The southern part of Paliya. South- The northern part of Pasiyapur. East- The western part of Samastpur. West- The eastern part of Khanpur.
19	Bhagat Singh Nagar	North- The southern part of Hasanapur. South- The northern part of Pasiyapur. East- The western part of Samastpur. West- The eastern part of Alepur.

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.